

FROM THE  
WORLD

USA

Trooper, suspect killed in shooting

After a gunman shot a Delaware State trooper inside a DMV office near Wilmington , the wounded trooper pushed a nearby employee to safety before the gunman shot him again, killing him, authorities said. A police officer then confronted, shot and killed the gunman. The trooper, who has not yet been named, was working an overtime assignment at the reception desk when the gunman walked in, approached the trooper and fired, state police said at a news conference Tuesday night. The gunman and the state trooper were transported to a hospital, where they died. "We lost a brother, a son, a best friend, a coach, a husband and a father," Col William D Crotty of the state police said at the news conference. "His last actions were that of a hero, a hero who saved lives today while sacrificing his own."The threat was over before 3 p.M., according to state police. A woman and a second state trooper had minor injuries, not from gunshots.

# US, Ukraine reach consensus on key issues aimed at ending war

ASSOCIATED PRESS

Kyiv

The United States and Ukraine have reached a consensus on several critical issues aimed at bringing an end to the nearly four-year conflict, but sensitive issues around territorial control in Ukraine's eastern industrial heartland, along with the management of the Zaporizhzhia nuclear power plant, remain unresolved, Ukraine's president said.

Volodymyr Zelenskyy spoke as the US showed the 20-point plan, hammered out after marathon talks in Florida in recent days, to Russian negotiators. A response is expected from Moscow on Wednesday, Zelenskyy said.

The Ukrainian president briefed journalists on each point of the plan on Tuesday. His comments were embargoed until Wednesday morning. The draft proposal, which reflects Ukraine's wishes, intertwines political and commercial interests to safeguard security while boosting economic potential. At the heart of the negotiations lies the contentious territorial dispute concerning the Donetsk and Luhansk regions, known as the Donbas. This is "the most difficult point," Zelenskyy said. He said these matters



A paramedic evacuating an elderly resident after a Russian drone hit an apartment building

AP

will be discussed at the leaders' level.

Russia continues to assert maximalist demands, insisting that Ukraine relinquish the remaining territory in Donbas that it has not captured — an ultimatum that Ukraine has rejected. Russia has captured most of Luhansk and about 70 per cent of Donetsk. In a bid to facilitate compromise, the United States has proposed transforming these areas into free economic zones.

Ukraine insists that any arrangement must be contingent upon a referendum, allowing the Ukrainian people to determine their own fate. Ukraine is demanding the demilitarisation of the area and the presence of an international force to ensure stability, Zelenskyy said.

How the Zaporizhzhia nuclear power plant, the largest plant in Europe, which is under Russian occupation, will be managed is another contentious issue. The US is proposing a consortium with Ukraine and Russia, with each party having an equal stake in the enterprise.

But Zelenskyy countered with a joint venture proposal between the US and Ukraine, in which the Americans are able to decide how to distribute their share, presuming it would go to Russia. "We did not reach a consensus with the American side on the territory of the Donetsk region and on the ZNPP," Zelenskyy said, referring to the power plant in Zaporizhzhia. "But we

have significantly brought most of the positions closer together. In principle, all other consents in this agreement have been found between them and us."

## A free economic zone compromise

Point 14, which covers territories that cut across the eastern front line, and Point 12, which discusses management of the Zaporizhzhia plant, will likely be major sticking points in the talks.

Zelenskyy said: "We are in a situation where the Russians want us to leave the Donetsk region, and the Americans are trying to find a way so that it is not a way out" — because we are against leaving — they want to find a demilitarized zone or a free economic zone in this, that is, a format that can provide for the views of both sides."

The draft states that the contact line, which cuts across five Ukrainian regions, should be frozen once the agreement is signed.

Ukraine's stance is that any attempt to create a free economic zone must be ratified by a referendum, affirming that the Ukrainian people ultimately hold the decision-making power, Zelenskyy said. This process will require 60 days, he added, during which time hostilities should stop to allow the process to happen. More difficult discussions would require hammering out how far troops would be required to move back, per Ukraine's proposal, and where international forces would be stationed. Zelenskyy said, "People can choose: this ending suits us or not," he said.

"Since there is no faith in the Russians, and they have repeatedly broken their promises, today's contact line is turning into a line of a de facto free economic zone, and international forces should be there to guarantee that no one will enter there under any guise — neither little green men nor Russian military disguised as civilians," Zelenskyy said.

## Managing Zaporizhzhia power plant

Ukraine is also proposing that the occupied city of Enerhodar, which is connected to the Zaporizhzhia power plant, be a demilitarised free economic zone, Zelenskyy said. This point required 15 hours of discussions with the US, he said.

For now, the US proposes that the plant be jointly operated by Ukraine, the US and Russia, with each side receiving dividends from the enterprise. "The USA is offering 33 per cent for 33 per cent for 33 per cent, and the Americans are the main manager of this joint venture," he said. "It is clear that for Ukraine, this sounds very unsuccessful and not entirely realistic.

How can you have joint commerce with the Russians after everything?"

Ukraine offered an alternative proposal, that the plant be operated by a joint venture with the US, in which the Americans can determine independently how to distribute their 50 per cent share. Zelenskyy said billions in investments are needed to make the plant run again, including restoring the adjacent dam. "There were about 15 hours of conversations about the plant.

# Explosion in Russia, kills three

PRESS TRUST OF INDIA

Moscow

Three people, including two police officers, were killed in a bomb blast in Russia on Wednesday near to the spot where a high-ranking general was killed days before. The blast happened after two police officers spotted a suspicious individual near a police car on the city's Yeletskaia Street, and when they approached the suspect to detain him, an explosive device was detonated, according to RIA Novosti agency.

The two police officers died from their injuries, along with another individual who was standing nearby. The blast

took place close to the location where a senior Russian general was killed in a car bombing in the capital on Monday. Lt Gen Fani Sarvarov died after an explosive device — which had been planted under a car - was detonated, Interfax agency reported quoting Investigative Committee sources.

The Moscow State Traffic Inspectorate has identified the deceased officers as police lieutenants Ilya Klimanov, 24, and Maxim Gorbunov, 25, who joined the force in October 2023 and February 2022, respectively. Gorbunov is survived by his wife and nine-month-old daughter. Their families have been promised all necessary assistance.

The third person - the suspected bomber and his identity is being established through DNA tests by the forensic experts as police are examining footage of surveillance cameras, NTV channel said adding that he could be linked to the Ukrainian secret service.

Meanwhile, several Russian regions including Moscow have come under Ukrainian drone attacks overnight, according to a Defence Ministry statement air defence systems destroyed 172 Ukrainian fixed-wing drones over Russian regions overnight, the Defence Ministry, TASS reported.

# US lawmakers express concern over total ban of Bangladesh's Awami League

PRESS TRUST OF INDIA

New York/Dhaka

A group of US lawmakers has expressed concern over the total ban of the Awami League political party ahead of elections scheduled in Bangladesh early next year.

The lawmakers have said that the Bangladeshi people deserve to be able to choose an elected Government in a free and fair election.



House Foreign Affairs Committee Representative Gregory Meeks

The foreign affairs committee also asked Yunus to ensure "inclusive elections".

Ranking Member of the House Foreign Affairs Committee Representative Gregory Meeks, Chairman of the Subcommittee on South and Central Asia Sydney Kamlager-Dove and Member of Congress Julie Johnson on Tuesday sent a letter to Chief Adviser of the Interim Government of Bangladesh Mohammed Yunus expressing concern over the total ban of a political party ahead of elections in February.

The letter's cosigners include Representative Tom Suozzi. The lawmakers said that it is vital that the interim Government work with parties across the political spectrum to create the conditions for free and fair elections that allow the voice of the Bangladeshi people to be expressed peacefully through the ballot box, as well as reforms that restore confidence in the integrity and nonpartisanship of State institutions. "We are concerned that this cannot happen if the Government suspends activities of political parties or again restarts the flawed International

Crimes Tribunal," they said.

They pointed out that the Department of State and many other international observers have noted that the 2018 and 2024 General Elections in Bangladesh were not free or fair.

In a February fact-finding report, the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights estimated that security services killed 1,400 people during the protests in July and August last year. "Genuine accountability for these acts and others should model the values of Bangladesh's democracy, rather than continue a cycle of retaliation," the lawmakers said.

"Freedom of association, as well as the principle of individual rather than collective criminal responsibility, are fundamental human rights," the lawmakers added. "We are concerned that the decision to fully suspend the activity of any one political party, rather than focus on persons determined to have committed crimes or gross violations of human rights through the due process of law, is inconsistent with those principles," the lawmakers added.

They expressed hope that the Yunus Government or an elected successor will revisit

the decision to suspend the activity of any one political party. "Ultimately, the Bangladeshi people deserve to be able to choose an elected Government in a free and fair election in which all political parties can participate so that their voices are represented," they said. Bangladesh has banned all activities of deposed premier Sheikh Hasina's Awami League party under an overnight revised anti-terrorism law.

Awami League and its affiliated organisations were banned under the Anti-Terrorism Act 2025 until Bangladesh's International Crimes Tribunal (ICT-BD) completed the trial of its leaders and activists.

A violent student-led street protest dubbed 'July Uprising' toppled Hasina's Awami League regime on August 5, 2024 and Yunus' subsequent interim administration disbanded the party under an executive order disqualifying it from contesting the polls, slated for February 12, 2026.

Bangladesh's domestic International Crimes Tribunal (ICT-BD) last month sentenced Hasina to death trying her in absentia for committing crimes against humanity to tame the protestors. But the US foreign relations committee letter expressed concerns over the restart of "flawed International Crimes Tribunal" after suspending activities of political parties.

Critically-ill former prime minister Khaleda Zia's Bangladesh Nationalist Party (BNP) emerged as the forerunner amid apparent disappearance of Awmi League from the political landscape with its once key-partner in 2001-2006 Jamaat-e-Islami being its main rival.

## THE PIONEER CLASSIFIEDS

### CHANGE OF NAME

**I, Subramani M, Father of-** No.14865972Y Nk Prakash S, R/o- 328 Kollaikottai, Mariamnikuppam Vaniyambadi, Vellore, Tamil Nadu- 635710, have changed my name from Subramani M to Subramani Manikkamandhiri, vide affidavit dated 24/12/2025 before Notary Public Delhi.

**PD(37451)C I, Latha, Mother of-** No.14865972Y Nk Prakash S, R/o- 328 Kollaikottai, Mariamnikuppam Vaniyambadi, Vellore, Tamil Nadu- 635710, have changed my name from Latha to Latha Subramani, vide affidavit dated 24/12/2025 before Notary Public Delhi.

**PD(37452)C I, JC-858899M Nb/Sub** Junghare Ravindra Ramesh, R/o- Vill- Vivare Bk, Teh- Raver, Dist- Jalgaon, Maharashtra- 425508, have changed my Daughter's name from Mokshada to Mokshada Ravindra Junghare, vide affidavit dated 24/12/2025 before Notary Public Delhi.

**PD(37453)C I, Sita, Mother of-** No.16019256A Hav Rajiv Kanojia, R/o- H.No.40, Palam Vihar, Dwarka, Sec-6, South West Delhi, Delhi- 110075, have changed my name from Sita to Sita Devi, vide affidavit dated 24/12/2025 before Notary Public Delhi.

**PD(37454)C I, Ranjana Vijay Chourpagar,** M/o Chourpagar Arpit Vijay, In the service record of my son No.4586293Y LNK Chourpagar Arpit Vijay Unit 9 Mahar Regt, my name is recorded as Ranjana. My correct name is Ranjana Vijay Chourpagar. Both names refer to one and same person. Henceforth Ranjana Vijay Chourpagar shall be treated as correct for all Army & Official purposes.

**PD(37455)C I, No.15590782P Hav/** Clk(SD) Virender Singh, R/o- VPO- Koti Utrou, Teh- Shillai, Dist- Sirmour, Himachal Pradesh- 173029, in my service records, my brother's name has been wrongly written as Ashish, whereas his correct name is Ashish Rana, which may be amended accordingly.

**PD(37456)C I, Ku Mamta Kumari, D/o-** No.14644222H Hav Amar Dutta Sharma, R/o- Vill- Shivala, Teh- Khair, Dist- Aligarh, U.P.- 202135, have changed my name from Ku Mamta Kumari to Mamta, vide affidavit dated 24/12/2025 before Notary Public Delhi.

**I, Kumari Asha Sharma, D/o-** No.14644222H Hav Amar Dutta Sharma, R/o- Vill- Shivala, Teh- Khair, Dist- Aligarh, U.P.- 202135, have changed my name from Kumari Asha Sharma to Asha Sharma, vide affidavit dated 24/12/2025 before Notary Public Delhi.

**PD(37458)C I, Munish Kumar Sharma, S/o-** No.14644222H Hav Amar Dutta Sharma, R/o- Vill- Shivala, Teh- Khair, Dist- Aligarh, U.P.- 202135, have changed my name from Munish Kumar Sharma to Manish Kumar Sharma, vide affidavit dated 24/12/2025 before Notary Public Delhi.

**PD(37459)C I, Shakuntla Devi, W/o-** No.14644222H Hav Amar Dutta Sharma, R/o- Vill- Shivala, Teh- Khair, Dist- Aligarh, U.P.- 202135, have changed my name from Shakuntla Devi to Shakuntla Devi, vide affidavit dated 24/12/2025 before Notary Public Delhi.

**PD(37460)C I Parmila Devi, Mother of** No.10136705K Nk Neeraj Thakur, R/o- 130 Vill Akbarpur Mazra, Delhi- 110036, have changed my name from Parmila Devi to Pramila Devi, vide affidavit dated 24/12/2025 before Notary Public Delhi.

**PD(37461)C I Viro Devi, Mother of** No.10136653Y Hav Amandeep Kumar, R/o- Vill- Babehali, Dist/Teh- Gurdaspur, Punjab- 143530, have changed my name from Viro Devi to Biro, vide affidavit dated 24/12/2025 before Notary Public Delhi.

**PD(37462)C I, Esther Shah, D/o Dinesh** Shah, R/o House No. 103, Street No. 2, Rahul Vihar-1, Ghaziabad, Uttar Pradesh, hereby declare that my actual name is Esther Shah. Henceforth Istar Kumari and Esther Shah are one and the same person.

**PD(37463)C**

### LOST & FOUND

**I, Rajendra Mishra, have lost** my registry papers. These registry papers are in the name of Ravi Mishra (GEE SEE CABLE INDUSTRIES). Their document numbers are 14 and 15, volume numbers 311 and 360, dated 1980. If anyone finds them, please inform us. Mobile number 9810201468.

**PD(37464)C**

**PUBLIC NOTICE**  
Notice is hereby given on behalf of my client Mr. Manoj Singh to inform the public at large that Mr. Manoj Singh & Mrs. Jyoti Singh are the owners of Entire Ground Floor, built on Plot No. A-112, measuring 483 Square Yards, situated at Safdarjung Enclave, New Delhi- 110029 vide Sale Deed dated 19.04.2010 (Doc No.4295) & Sale Deed dated 13.09.2024 (Doc No.2024B/62581) and same to be financed & mortgaged by Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd., Branch-Noida. That Original Conveyance deed dated 06.06.1996 (Doc No.4336) executed by The President of India through DDA in favour of Mrs. Harwant Kaur in respect of the entire property has been lost. So, to comply the requirements of BANK/NBFC, we give this public notice that if any person(s) having any objection regarding ownership and/or creating mortgage of the said property is/are hereby requested to intimate in writing to the undersigned about his objections within 7 days from today, failing which it shall be presumed that the said property is free from all type of Encumbrances. Lucien Legal LLP, B-938, Second Floor, Opp. SBI Bank Sector 2 Noida, UP-201301>Contact#0120-4269379

**PUBLIC NOTICE**  
Notice is hereby given on behalf of Mr. Sitav Ali to inform the public at large that Mr. Sitav Ali is purchasing the Residential Vacant Plot area measuring 100 sq. yards, out of Kharsa No.35/11A, situated at Village Chotpur, Pargana & Tehsil Dindri, District Gautam Budh Nagar, U.P. from Mr. Safem Khan who became owner vide Sale Deed dated 17.12.2024 (Document No.8723) and same to be financed & mortgaged by Aditya Birla Housing Finance Ltd., Noida. That, Original Sale Deed Dated 25.07.2013 executed by Mr. Ravi in favour of Mrs. Gobita Vats in respect of the said property, vide document No.9354, book no. 7, vol no.5317, Pages 191-206, dated 25.07.2013, SR-11 Noida has been lost/in misplaced/not available. So, to comply the requirements of BANK/NBFC, we give this public notice that if any Person having any type of claim/rights/interests/creating mortgage over the said property, may inform in writing, at the address mentioned below, about his objections, within 7 days from today, failing which it shall be presumed that the said property is free from all type of Encumbrances. Lucien Legal LLP, B-938, Second Floor, Opp. SBI Bank Sector 2 Noida, UP-201301>Contact#0120-4269379

<

RAMPUR FERTILIZERS LIMITED	
CIN: L15136UP1988PLC010084	
Registered Office: Judges Bareilly Road, Rampur-244901 (U.P.)	
Phone No. 0595-2352028, 4050054   Web: www.rampurfert.com	
Email: rkumar@rampurfert.com	
SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES	
Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MRSD/MRSD-PoD/CIR/2025/97 dated 2nd July 2025, all shareholders are hereby informed that a special Window is being opened for a period of six months, from 7th July 2025 to 6th January 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares.	
This facility is available only for Transfer Deeds lodged prior to 1st April 2019 and which were rejected, returned, or not attended to, due to deficiencies in documents/processes or otherwise. Investors who have missed the earlier deadline of 31st March 2021, are encouraged to take advantage of the opportunity, by furnishing the necessary documents to the Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s. Mas Services Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi - 110020, Ph- 26387261/62/63, email - investor@masserv.com. During this period, the securities that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat mode. While re-lodging the transfer request with the RTA, the investor must have a demat account and provide their Client Master List along with the transfer documents, Share Certificate and other relevant documents. Transfer request submitted after 6th January 2026 will not be accepted by the Company/RTA.	
By Order of Board of Directors For Rampur Fertilizers Ltd. Sd/- Anshuman Khaitan (Managing Director)	
Date: 24 Dec. 2025 Place: Rampur	

# Search teams probe wreckage after Libyan army chief, 7 others are killed in Turkiye plane crash

ASSOCIATED PRESS

Ankara

Search and recovery teams on Wednesday intensified their operations at the site of a plane crash that killed Libya's military chief and other high-level officers, working to secure the area and locate the aircraft's flight recorders after a night of heavy rain and fog, Turkiye's state-run news agency said.

The private jet carrying General Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, four other officers and three crew members crashed in Turkiye on Tuesday after taking off



Soldiers and rescue teams searching for the remains of a private jet

AP

from the capital, Ankara, killing everyone on board. Libyan officials said the

cause of the crash was a technical malfunction on the plane. The Libyan delega-

tion was on its way back to Tripoli after holding high-level defence talks in Ankara aimed at boosting military cooperation between the two countries.

Libyan Prime Minister Abdul-Hamid Dbeibah confirmed the deaths, describing the incident on Facebook as a "tragic accident" and a "great loss" for Libya.

Al-Hadad was the top military commander in western Libya and played a crucial role in the ongoing, UN-brokered efforts to unify Libya's military, which has split, much like Libya's other institutions.

# BNP's acting chief set to return to Bangladesh after 17 years

PRESS TRUST OF INDIA

Dhaka

Bangladesh Nationalist Party's Acting Chairman Tarique Rahman, who has been living in self-exile in London for nearly 17 years, is set to return home on Thursday, local media reported. Rahman, the 60-year-old son of ailing former premier Khaleda Zia, has emerged as a leading contender for prime minister in the upcoming February general elections. He will depart London's Heathrow Airport on a Biman Bangladesh Airlines flight with his wife, Dr Zubaida Rahman, and daughter Zaima Rahman, according to the Dhaka Tribune newspaper. He is expected to arrive at Hazrat Shahjalal International Airport here on Thursday at 11:55 am local time. Rahman will travel by road from the airport. According to reports, party leaders and activists will line both sides of the road to greet him.





# दिल्ली मेट्रो का नया रूट बना राजधानी की लाइफलाइन मिनटों में तय होगा कनाॉट प्लेस से इंडिया गेट तक का सफर



पारयनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली मेट्रो के नए रूट ने शहर की कर्नाटप्लेस की ओर जानेवाले यात्रियों को आसानी से इंडिया गेट तक पहुंचाने में मदद करेगा। नई दिल्ली मेट्रो के नए रूट का नाम 'कनाॉट प्लेस-इंडिया गेट' है। यह रूट काटने पर कनाॉट प्लेस, कानून भवन और इंडिया गेट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में आने-जाने वाले लाखों लोगों के लिए यह नया कानिस्टेंट बंदर उपलब्ध होगा। इस रूट के शुरू होने से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि सड़क वातावरण का दबाव भी कम होगा। दिल्ली मेट्रो के फेज-पांच ए का यह प्रमुख कॉरिडोर



पारयनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली मेट्रो के नए रूट का नाम 'कनाॉट प्लेस-इंडिया गेट' है। यह रूट काटने पर कनाॉट प्लेस, कानून भवन और इंडिया गेट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में आने-जाने वाले लाखों लोगों के लिए यह नया कानिस्टेंट बंदर उपलब्ध होगा। इस रूट के शुरू होने से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि सड़क वातावरण का दबाव भी कम होगा। दिल्ली मेट्रो के फेज-पांच ए का यह प्रमुख कॉरिडोर

राजधानी दिल्ली के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली मेट्रो के नए रूट का नाम 'कनाॉट प्लेस-इंडिया गेट' है। यह रूट काटने पर कनाॉट प्लेस, कानून भवन और इंडिया गेट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में आने-जाने वाले लाखों लोगों के लिए यह नया कानिस्टेंट बंदर उपलब्ध होगा। इस रूट के शुरू होने से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि सड़क वातावरण का दबाव भी कम होगा। दिल्ली मेट्रो के फेज-पांच ए का यह प्रमुख कॉरिडोर

राजधानी दिल्ली के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली मेट्रो के नए रूट का नाम 'कनाॉट प्लेस-इंडिया गेट' है। यह रूट काटने पर कनाॉट प्लेस, कानून भवन और इंडिया गेट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में आने-जाने वाले लाखों लोगों के लिए यह नया कानिस्टेंट बंदर उपलब्ध होगा। इस रूट के शुरू होने से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि सड़क वातावरण का दबाव भी कम होगा। दिल्ली मेट्रो के फेज-पांच ए का यह प्रमुख कॉरिडोर

## सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र में 27 से 29 दिसंबर तक खेल महाकुंभ

- गुरुग्राम, रेवाड़ी और नूंह में पहली बार संयुक्त रूप से होगा भव्य आयोजन
- केंद्रीय मंत्री राजू इंदुजीत सिंह ने गुवाआई से सहभागिता का गुवाआई



पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

सांसद खेल महोत्सव के इतिहास गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव 2025 की तैयारियां पूरे उत्साह और व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। गुरुग्राम, रेवाड़ी एवं नूंह जिलों में एक साथ आयोजित होने जा रही इस बहुप्रसिद्ध खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 दिसंबर 2025 को होगा, जो 29 दिसंबर 2025 तक चलेगी।

पहली बार तीनों जिलों में संयुक्त रूप से होने वाले खेल प्रतियोगिता में सांसद खेल महोत्सव 2025 की तैयारियां पूरे उत्साह और व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। गुरुग्राम, रेवाड़ी एवं नूंह जिलों में एक साथ आयोजित होने जा रही इस बहुप्रसिद्ध खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 दिसंबर 2025 को होगा, जो 29 दिसंबर 2025 तक चलेगी।

## छात्रावास के बच्चों को बांटे गर्म कपड़े और भोजन

पारयनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

संजय कालोनी स्थित माडन बीपी पब्लिक स्कूल ने सांसद खेल महोत्सव 2025 की तैयारियां पूरे उत्साह और व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। गुरुग्राम, रेवाड़ी एवं नूंह जिलों में एक साथ आयोजित होने जा रही इस बहुप्रसिद्ध खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 दिसंबर 2025 को होगा, जो 29 दिसंबर 2025 तक चलेगी।

पहली बार तीनों जिलों में संयुक्त रूप से होने वाले खेल प्रतियोगिता में सांसद खेल महोत्सव 2025 की तैयारियां पूरे उत्साह और व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। गुरुग्राम, रेवाड़ी एवं नूंह जिलों में एक साथ आयोजित होने जा रही इस बहुप्रसिद्ध खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 दिसंबर 2025 को होगा, जो 29 दिसंबर 2025 तक चलेगी।

पहली बार तीनों जिलों में संयुक्त रूप से होने वाले खेल प्रतियोगिता में सांसद खेल महोत्सव 2025 की तैयारियां पूरे उत्साह और व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। गुरुग्राम, रेवाड़ी एवं नूंह जिलों में एक साथ आयोजित होने जा रही इस बहुप्रसिद्ध खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 दिसंबर 2025 को होगा, जो 29 दिसंबर 2025 तक चलेगी।

पहली बार तीनों जिलों में संयुक्त रूप से होने वाले खेल प्रतियोगिता में सांसद खेल महोत्सव 2025 की तैयारियां पूरे उत्साह और व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। गुरुग्राम, रेवाड़ी एवं नूंह जिलों में एक साथ आयोजित होने जा रही इस बहुप्रसिद्ध खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 दिसंबर 2025 को होगा, जो 29 दिसंबर 2025 तक चलेगी।

## भारत की पहली रोबोटिक टेली सर्जरी मैराथन में 100 सफल सर्जरी का बना कीर्तिमान डा. सुधीर पी. श्रीवास्तव ने की सर्जरी

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

भारत की पहली स्टेन्डी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम मंजूर बनाने वाली कंपनी इन्वोवेशन इंटरनेशनल ने एक एपिस्टोमिकल सिस्टम हासिल की है। कंपनी ने 100 सफल रोबोटिक टेली सर्जरी पूरी करने का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। इस उपलब्धि तकनीक सक्षम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश के लिए एक बड़ा कदम है। तकनीक के इस इस्तेमाल से यह साबित हो गया है कि स्टेन्डी नवचार के माध्यम से उन्नत सर्जिकल विरोधता को दूर-दूर तक सुरक्षित और विश्वव्यापी रूप से पहुंचाया जा सकता है। इस एपिस्टोमिकल सिस्टम के उपयोग में कंपनी ने भारत की पहली मेमन रोबोटिक टेली सर्जरी की, जिसमें एक डॉक्टर ने 20 से अधिक सफलता पूर्वक टेली सक्षम रोबोटिक सर्जरी की गई, जिसमें देश के प्रमुख रोबोटिक



सर्जनों ने भाग लिया। 1.4 अब्ज की आयवादी वाले भारत जैसे देश में जहां उन्नत सर्जिकल देखभाल कम समय में पहुंचाने का एक चुनौती है। इस उपलब्धि टेली सर्जरी की परिवर्तन क्षमता को दर्शाती है। एपिस्टोमिकल मंजूर के माध्यम से विश्वव्यापी सूरज दैवकत सर्जरी को सक्षम है। इस अवसर पर एपिस्टोमिकल रोबोटिक सिस्टम के उपयोग में पहली टेली सर्जरी की, जिसमें एक डॉक्टर ने 20 से अधिक सफलता पूर्वक टेली सक्षम रोबोटिक सर्जरी की गई, जिसमें देश के प्रमुख रोबोटिक



सर्जनों ने भाग लिया। 1.4 अब्ज की आयवादी वाले भारत जैसे देश में जहां उन्नत सर्जिकल देखभाल कम समय में पहुंचाने का एक चुनौती है। इस उपलब्धि टेली सर्जरी की परिवर्तन क्षमता को दर्शाती है। एपिस्टोमिकल मंजूर के माध्यम से विश्वव्यापी सूरज दैवकत सर्जरी को सक्षम है। इस अवसर पर एपिस्टोमिकल रोबोटिक सिस्टम के उपयोग में पहली टेली सर्जरी की, जिसमें एक डॉक्टर ने 20 से अधिक सफलता पूर्वक टेली सक्षम रोबोटिक सर्जरी की गई, जिसमें देश के प्रमुख रोबोटिक

सर्जनों ने भाग लिया। 1.4 अब्ज की आयवादी वाले भारत जैसे देश में जहां उन्नत सर्जिकल देखभाल कम समय में पहुंचाने का एक चुनौती है। इस उपलब्धि टेली सर्जरी की परिवर्तन क्षमता को दर्शाती है। एपिस्टोमिकल मंजूर के माध्यम से विश्वव्यापी सूरज दैवकत सर्जरी को सक्षम है। इस अवसर पर एपिस्टोमिकल रोबोटिक सिस्टम के उपयोग में पहली टेली सर्जरी की, जिसमें एक डॉक्टर ने 20 से अधिक सफलता पूर्वक टेली सक्षम रोबोटिक सर्जरी की गई, जिसमें देश के प्रमुख रोबोटिक

### कार्यालय से 7.5 लाख उड़ाने वाला आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। पटपटगंज औद्योगिक क्षेत्र इलाके में पूर्व कर्मचारी ने अपने मालिक के कार्यालय से 7.5 लाख रुपये की चोरी की वार्तात को अंजाम दे डाला। जांच के दौरान मामले का खुलासा हुआ तो दो मौबैल फोन चोरी की बात भी सामने आई। फिलहाल पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की रकम को वापस कर लिया है। पुलिस उपपुक्त अभिषेक धानिया के मुताबिक, आरोपी की पहचान मेठ के नू इस्लामपुर निवासी अमर मोहन के रूप में हुई है। पटपटगंज में आरोपी ने खुलासा कि वह पहले लिखायाकर्ता के यहां चलाकर के रूप में काम करता था और कार्यालय की मौबैल फोन अचूक तरह जताता था। इसी जानकारी का फायदा उठाकर उन्नत चोरी की योजना बनाई। फिलहाल पुलिस आरोपी ने आगे की पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पहले एक लेफ्टीव बिजनेस में काम करता था। कुछ समय पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी और उसके कंपनी के कार्यालय में सेंस लाइनर 7.5 लाख नकद व दो मौबैल फोन चोरी कर लिए। फिलहाल पुलिस ने 17 दिवस की मारामा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की गई।

## गुरुग्राम के वर्ल्डमार्क में क्रिसमस पर दिखा लंदन जैसा नजारा

- वर्ल्डमार्क मॉल में संजारा गया विशाल क्रिसमस ट्री व पानी पर बनाया लंदन ब्रिज
- बुकफोर्ड प्रॉपर्टीज ने दिल्ली-एनसीआर, लुधियाना में भी बनाए ऐसे मॉडल



पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

वैसे तो क्रिसमस का पर्व दुनियाभर में उत्साह से मनाया जाता है, गुरुग्राम में इस बार का क्रिसमस पर्व बुकफोर्ड प्रॉपर्टीज ने अलग-अलग नजर आ रहा है। यहां वर्ल्डमार्क मॉल में विशाल क्रिसमस ट्री बनाकर उसके साथ लंदन ब्रिज भी बनाया गया है। क्रिसो तो पर इसकी सजावट भी की गई है। वैश्विक स्तर पर रिज एलेंट कंपनी बुकफोर्ड प्रॉपर्टीज की ओर से यह प्रयास किया गया है कि स्थानीय लोगों को क्रिसमस पर लंदन जैसे क्रिसमस की फील कराई जाए। यहां सेक्टर-65 स्थित वर्ल्डमार्क मॉल परिसर में वाटरवॉडी पर 70 फीट लंबा लंदन ब्रिज बनाया गया है। इसी के साथ ही 25 फीट ऊंचा भव्य

क्रिसमस ट्री बनाया गया है। गुरुग्राम के साथ-साथ वर्ल्डमार्क एपारो रिटेल टिथली, रिज सेंट्रल नगर और पोलिगन मॉल लुधियाना में ए सेवे लंदन क्रिसमस का आयोजन किया गया है। इस विशेष प्रयास के माध्यम से कंपनी ने अलग-अलग सजावट और विशेष अनुभवों के अलावा कलात्मक लंदन क्रिसमस के आकर्षण और शांतिता को जीवंत कर दिया है। यहां की सजावट पिकाडिली स्कंस, माल्टर डबल-डेकर बस, लंदन ब्रिज, विक्टोरियन क्रिसमस सेटिंग्स, पारंपरिक टेलीग्राफ बॉक्स, नटक्रैकर्स और फेरी ट्रेस जैसे चीजों को यहां लुधियाना रूप में शांति रहा है। इसी की सड़कों जैसा माहौल और नजारा

माहसूस किया जा रहा है। बुकफोर्ड प्रॉपर्टीज के वास रिजिटेटिव लिनन बार का कनना है कि हमारा ध्यान ऐसे डेस्टिनेशन बनाने पर है जो विश्व स्तरीय और अनुभव-आधारित पलों को सौंपता है। ए सेवे लंदन क्रिसमस हमारे विजुअल के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्सवों को करीब लाने और हमारे रिटेल केंद्रों को सक्षम सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने की हमारी प्रयत्नता को दर्शाता है। यहां की वर्ल्डमार्क मॉल में आयोजित गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं, जिनमें टेलर टू साता, सात फेंद, डीआईआई वक्रोश्री, फेस्टिव प्ले मॉडल और सुपरफू क्रिसमस केथेस शालिय है।

## वैश्य समाज का नेता प्रतिपक्ष से व्यापार संवाद

- राहुल गांधी से मुलाकात कर अशोक बुधानीवाला ने समाज व व्यापार सहित कई विषयों पर की चर्चा



पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

सांसद एवं संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से अखाल वैश्य समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष एवं वैश्य समाज के अध्यक्ष अशोक बुधानीवाला ने संसद भवन में मुलाकात की। करीब पौने घंटे की इस मुलाकात के दौरान वैश्य समाज और करीब पौने घंटे की बातचीत, जीएसटी, फिक्स बिजनेस चार्ज, वन नेशन वन टैक्स, एमएसएमई एवं ऑनलाइन व्यापार से जुड़े खुराद व मोबैल फोन के इस्तेमाल की समस्याएं साझा करते हुए वैश्य

समाज के प्रतिनिधियों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ व्यापार संवाद किया और व्यवसाय में आ रही गंभीर परेशानियों को उनके समझ रखा। मुलाकात की विस्तृत जानकारी देते हुए अशोक बुधानीवाला ने कहा कि सांसद राहुल गांधी ने भी इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए इन मुद्दों में देशहित में संसद में उठाने की बात कही। बुधानीवाला ने कहा कि वैश्य समाज समाजवाद के अग्रदूत महाराजा

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

सांसद एवं संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से अखाल वैश्य समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष एवं वैश्य समाज के अध्यक्ष अशोक बुधानीवाला ने संसद भवन में मुलाकात की। करीब पौने घंटे की इस मुलाकात के दौरान वैश्य समाज और करीब पौने घंटे की बातचीत, जीएसटी, फिक्स बिजनेस चार्ज, वन नेशन वन टैक्स, एमएसएमई एवं ऑनलाइन व्यापार से जुड़े खुराद व मोबैल फोन के इस्तेमाल की समस्याएं साझा करते हुए वैश्य

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

### शैलेसीमिया बच्चों ने धूमधाम से मनाया क्रिसमस

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पारयनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम